

"अनुबंध के आधार पर दो (2) वर्षों की अवधि के लिए सीएमपीडीआई में पूर्णकालिक परामर्शदाता (अन्य खनिज / गैर कोयला क्षेत्र) के नियोजन हेतु अधिसूचना।"

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) अनुबंध के आधार दो (2) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए पूर्णकालिक परामर्शदाता (अन्य खनिज / गैर कोयला क्षेत्र) के नियोजन हेतु केंद्रीय / राज्य सरकारों के पीएसयूएस / स्वायत्त संगठनों से भूविज्ञान अनुशासन के सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करती है। वीआरएस का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पात्रता मानदंड, नियोजन की शर्तों, वेतन व भत्ते और अन्य लाभों का विवरण परिशिष्ट "ए" और परिशिष्ट "बी" पर उपलब्ध है, जिन्हें www.cmpdi.co.in पर देखा जा सकता है।

आवेदन "महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन), सीएमपीडीआईएल, रांची के कार्यालय में ईमेल gmp.cmpdi@coalindia.in या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट या सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के केंद्रीय रिसीट/ डिस्पैच अनुभाग में व्यक्तिगत सुपुर्दगी के माध्यम से 14.08.2020 तक या उससे पहले पहुँचना चाहिए।

यदि पारगमन में कोई देरी होती है तो उसके लिए कंपनी या सीएमपीडीआई प्रबंधन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण
1.	पद का नाम	पूर्णकालिक परामर्शदाता (अन्य खनिज / गैर कोयला क्षेत्र)
2.	पदस्थापना की जगह	सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), राँची
3.	पद की कुल संख्या	01
4.	भूमिका और उत्तरदायित्व	परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं:- क. राज्य के डीजीएमएस और निजी कंपनियों के परामर्श से लौह अयस्क, बॉक्साइट, आरईई और औद्योगिक खनिजों के ब्लॉकों की पहचान। ख. निजी कंपनियों और राज्य सरकारों से लोहे और बाक्साइट व अन्य गैर-कोयला खनिजों के गवेषण कार्य प्राप्त करने के लिए गवेषण प्रस्ताव / तकनीकी प्रस्तावों को तैयार करना। ग. फील्डवर्क / प्रयोगशाला कार्य के दौरान तकनीकी मैनपावर का मार्गदर्शन। घ. निविदाओं के निष्पादन में तकनीकी मामलों में मदद करना। ङ. जीआर को तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना। च. गैर-कोयला खनिजों के गवेषण कार्यों के लिए क्षमता का विकास करना।
5.	पात्रता	गैर कोयला क्षेत्र के विभिन्न अयस्क खनिजों में संभावना, गवेषण और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैनपावर को प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन के द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करने में व्यक्ति को विशेषज्ञता होनी चाहिए और उसे केंद्रीय / राज्य सरकारों के पीएसयूएस / स्वायत्त संगठनों से भूविज्ञान अनुशासन के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से होना चाहिए।
6.	अनुभव	सेवानिवृत्त ई -8 / ई -7 या समकक्ष ग्रेड के व्यक्ति जिन्हें गैर कोयला क्षेत्र (गैर कोयला क्षेत्र में विभिन्न अयस्क खनिज) में उपयुक्त भूवैज्ञानिक मॉडल / रिपोर्ट तैयार करने के लिए संगत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग / उपयोग का ज्ञान होने के साथ-साथ उन्नत आधुनिक गवेषण तकनीक का उपयोग करते हुए गवेषण शुरू करने / पहचान करने/ संभावना/ सर्वेक्षण /जांच / गवेषण / गुणवत्ता और संसाधन मूल्यांकन / भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने आदि का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव हो।
7.	अधिकतम आयु सीमा	अनुबंध की अवधि के दौरान 65 वर्ष से अधिक नहीं
8.	अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान से (भूविज्ञान/अनुप्रयोगिक भूविज्ञान) में एम.एससी/एम.टेक की न्यूनतम डिग्री धारित करनी चाहिए। प्रासंगिक विषय में पीएच. डी एक अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है।
9.	नियोजन की शर्तें	सीआईएल के दिनांक 17.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या CIL/C5A(PC)/Advisor/2746 और इससे सम्बंधित दिनांक 23.10.2019 को जारी संशोधन संख्या CIL/C5A(PC)/Advisor/284 के अनुसार
10.	पारिश्रमिक और अन्य लाभ	सीआईएल की वेबसाइट coalindia.in पर इन्फो बैंक/सर्कुलर लिंक के अंतर्गत सीआईएल के दिनांक 17.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या CIL/C5A(PC)/Advisor/2746 और दिनांक 23.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या CIL/C5A(PC)/Advisor/284 के अनुसार। इनकी प्रतिलिपि को इसके साथ संलग्न कर दिया गया है।

सभी पत्र व्यवहार आवेदन के अग्रभाग में दिए गए डाक के पते/ई-मेल पते पर ही किया जाएगा।

साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को चुनने का अधिकार सीएमपीडीआई प्रबंधन के पास आरक्षित है। साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाता है तो उसे कोई टीए/डीए नहीं प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन)

परिशिष्ट "बी"

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण
1.	रिफरेन्स संख्या या विज्ञापन/अधिसूचना का दिनांक	
2.	नाम	
3.	पिता/पति का नाम	
4.	जन्मतिथि	
5.	वर्तमान पता	
6.	स्थायी पता	
7.	कांटेक्ट न. या ई-मेल आईडी	
8.	जाति- सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	
9.	शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता (प्रमाणपत्रों को स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए)	
10.	अनुभव	
11.	विशेष उपलब्धि, यदि कोई हो तो	
12.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद का नाम	
13.	सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि	
14.	आवेदन करने की तिथि तक किसी विभागीय/सतर्कता/सुरक्षा/न्यायालय के लंबित मामले का पूर्ण विवरण	
15.	कोई अन्य सूचना	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही हैं ।

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक